



**राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक**

साआधिकार प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

भाद्र 5, मंगलवार शाके 1941 अगस्त 27, 2019

Bhadra 5, Tuesday, Saka 1941–August 27, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur August 14, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/ 7316.-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal officer Municipal Board Nasirabad has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Nasirabad. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal officer.

**By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Governement.**

कार्यालय नगरपालिका नसीराबाद जिला – ,अजमेर

प्रपत्र (क)

SECTOR	WARD NO.	विवरण
5 व 6 का आंशिक भाग	1	उत्तर पश्चिम में म.नं. 5/260 से 9 मीटर रोड होते हुये मकान नं. 5/271 तक, उत्तर में म. नै. 5/259 से 9 मीटर रोड होने हुये म.न. 5/243 तक, व. 5/226 से म.न. 5/242 तक, सैक्टर पार्क 5 प्रथम शामिल करते हुये पूर्व दक्षिण दिशा म.न. 5/194 से 9 मीटर रोड शामिल करते हुये म.न. 5/206 तक कुल प्लॉट। मकानों की संख्या 55 व क्षैत्रफल 12169.57 मीटर ²
	2	उत्तर पश्चिम दिशा में म.न. 5/272 से 9 मीटर रोड होते हुये म.न. 5/279 तक, उत्तर पूर्व में म.न. 5/217 से 5/225 तक व. म.न. 5/216 से 5/208 तक, पूर्व दक्षिण दिशा में म.न. 5/207 से 5/207D तक 9 मीटर रोड होते हुये म.न. 5/125 से पश्चिम दक्षिण दिशा में म.न. 5/145 तक कुल प्लॉट। मकानों की संख्या 53 व क्षैत्रफल 4433.54 मीटर ²
	3	उत्तर पश्चिम दिशा—म.न. 5/280 से 9 मीटर रोड होते हुये 5/296 तक सैक्टर पार्क 5 द्वितीय शामिल करते हुये उत्तर पूर्व दिशा में 5/124 से म.न. 5/104 तक 9 मीटर रोड होते हुये पश्चिम दक्षिण में म.न. 5/70 से म.न. 5/80 तक कुल प्लॉट / मकानों की संख्या 50 व क्षैत्र 7025.91 मीटर ² म
	4	उत्तर पश्चिम में म.नं. 5/374 से 5/363 तक 9 मीटर रोड शामिल करते हुये म.न. 5/362 से म.न. 5/347 तक व. म.न. 5/346 से म.न. 5/331 तक 9 मीटर रोड शामिल करते हुये पूर्व दक्षिण दिशा में म.न. 5/315 से 5/330 तक कुल प्लॉट / मकानों की संख्या 54 व क्षैत्र.

		7582.41मीटर ²
5 व 6 का आंशिक भाग	5	उत्तर पश्चिम—म.न.5/314 से 9मीटर रोड शामिल करते हुये म.न. 5/306 तक सैकटर पार्क 6 प्रथम शामिल करते हुये म.न. 6/211 से म.न.6/202 तक 9 मीटर होते हुये म.न.6/212 से 6/216 तक 12मीटर रोड शामिल करते हुये पूर्व दक्षिण दिशा में म.न. 5/297 से 9मीटर रोड होते हुये 5/305 तक व म.न. 6/1 से म.न. 6/14 तक कुल प्लॉट /मकानों की संख्या 47व क्षेत्रफल 7868.89मीटर ²
	6	उत्तर पूर्व –म.न.6/228 से म.न.6/2117 तक उत्तर दक्षिण दिशा में,म.न. 6/229 से 9 मीटर रोड होते हुये म.न.6/234 तक, सैकटर पार्क 6द्वितीय शामिल करते हुये म.न. 6/185 से 6/177 तक 9 मीटर रोड शामिल करते हुये पूर्व दक्षिण दिशा में म.न.6/186 से 6/193 व म.न. 6/201 से 6/म.न. 6/194 तक 12मीटर रोड शामिल करते हुये म.न.6/15 से म.न.6/25 तक कुल प्लॉट /मकानों की संख्या 55 व क्षेत्रफल 10110.67मीटर ²
	7	उत्तर पश्चिम दिशा 6/235 से म.न. 6/239 तक 9मीटर राड शामिल करते हुये उत्तर पूर्व दिशा में 6/167 से 6/176 तक 9 मीटर रोड शामिल करते हुये म.न. 6/166 से म.न.6/148 व 6/147 तक, पूर्व दक्षिण दिशा में 6/26 से 6/30 तक कुल प्लॉट /मकानों की संख्या 57 व क्षेत्रफल 11883.84 मीटर ²
6 का आंशिक भाग	8	उत्तर पश्चिम— म.न.6/241 से 9 मीटर रोड होते हुये म.न. 6/266 तक , म.न.6/127 से 6/114 तक व 6/100 से 6/113 तक 9 मीटर रोड शामिल करते हुये म.न.पश्चिम दक्षिण दिशा में म.न. 6/80 से म.न. 6/74 तक कुल प्लॉट /मकानों की संख्या 61 व क्षेत्रफल 8563.02मीटर ²
	9	उत्तर पश्चिम दिशा में सैकटर पार्क तृतीय शामिल करते हुये म.न. 6/165 से म.न.6/50 तक 9 मीटर रोड होते हूये म.न. 6/91 से म.न. 6/99 व 6/81से 6/90 तक 12 मीटर रोड शामिल करते हुये म.न. 6/72 से म.न.6/80 तक, पूर्व दक्षिण में 6/31से6/49 तक कुल प्लॉट 47 व क्षेत्रफल 3788.38 मीटर ²
5 का आंशिक भाग	10	उत्तर पश्चिम— म.न. 5/193 से 9 मीटर रोड शामिल करते हुये म.न. 5/180, पूर्व दक्षिण— म.न. 5/163A से म.न. 5/179 तक व 5/162A से 5/146 तक कुल प्लॉट /मकानों की संख्या 48 व क्षेत्रफल 20711.43 मीटर ²
5 व 4 का आंशिक भाग	11	उत्तर पश्चिम— म.न. 5/81 से 9 मीटर रोड शामिल करते हुये म.न. 5/92 तक व म.न. 5/58 से 5/69 तक, म.न. 5/103 से 5/93 तक 9 मीटर रोड होने हुये पूर्व दक्षिण दिशा में 5/14 से 5/21 व 5/13 से 5/06 तक कूल प्लॉट /मकानों की संख्या 51 व क्षेत्रफल 5352.27 मीटर ²
	12	उत्तर पूर्व – 9 मीटर रोड शामिल करते हुये म.न. 5/43 से म.न. 5/57 तक व म.न. 5/42 से 5/28 तक 18 मीटर रोड शामिल करते पूर्व दक्षिण दिशा में म.न. 5/22 से म.न. 5/27 तक व 5/05 से 12 मीटर रोड शामिल करते हुये 5/1 तक, सैकटर 4 का आंशिक भाग में म.न.

		4/113 से म.न. 4/121 तक व म.नं. 4/170, 4/171, 4/172, व 4/173 तक कुल प्लॉट /मकानों की संख्या 55 व क्षेत्र. 8782.03 मीटर ²
4 का आंशिक भाग	13	उत्तर पश्चिम – 12 मीटर रोड शामिल करते हुये म.न. 4/94 से 4/112 तक म.न. 4/129 से म.नं. 4/122 तक 9 मीटर शामिल करते हुये सैक्टर पार्क 4 द्वितीय को शामिल करते हुये म.न. 4/130 से म.नं. 4/134 तक व 4/140 से 4/135 तक 9 मीटर रोड होते हुये म.न. 4/169 से पश्चिम दक्षिण में म.नं. 4/163 व म.न. 4/174 से म.नं. 4/180 तक 18 मीटर रोड शामिल करते हुये कुल प्लॉट /मकानों की संख्या 51 व क्षेत्रफल 19412 मीटर ²
4 व 3 का आंशिक भाग	14	उत्तर पूर्व – म.नं. 4/31 से म.नं. 4/27 व म.नं. 4/45 तक म.नं. 4/50 तक 9 मीटर रोड शामिल करते हुये म.न. 4/61, 4/62, 4/63 व 4/64 तक 9 मीटर रोड शामिल करते हुये म.न. 4/191 से म.नं. 4/200 तक व म.न. 4/180 से 4/190 तक, सैक्टर पार्क 4 प्रथम शामिल करते हुये राजकीय विद्यालय को आरक्षित भूमि शामिल करते हुये नवोदय विद्यालय का पूरा भाग, व म.न. 4/13 से 9 मीटर रोड पूर्व दक्षिण दिशा में म.न. 4/26 व मकान न. 4/10 से 24 मीटर रोड होते हुये मकान न. 4/1 तक, R.S.E.B, O.C.F. व व्यवसायिक भूखण्ड तृतीय शामिल करते हुये सैक्टर 3 का आंशिक भाग के म.न. 3/23 से 3/16 तक कुल प्लॉट /मकानों की संख्या 65 व क्षेत्र. 1523.49 मीटर ²
4 का आंशिक भाग	15	उत्तर पश्चिम – म.न. 4/93 से 9 मीटर रोड होते हुये म.नं. 4/75 तक, उत्तर पूर्व दिशा में म.न. 4/38 से म.नं. 4/32 तक व व 4/39 से म.नं. 4/45 तक 9 मीटर रोड शामिल करते हुये म.न. 4/51 से 4/60 तक व म.न. 4/74 से 4/65 तक कुल प्लॉट /मकानों की संख्या 46 व क्षेत्रफल 15493.25 मीटर ²
3 का आंशिक भाग	16	उत्तर पश्चिम – म.न. 3/24 से 3/35 व 3/9 से म.न. 3/12 तक 24 मीटर रोड होते हुये, सैक्टर 2 का आंशिक भाग के म.न. 2/148 से 9 मीटर रोड होते हुये म.न. 2/143 व म.न. 2/136 से म.न. 2/142 तक 9 मीटर रोड शामिल करते हुये, उत्तर पूर्व में सैक्टर पार्क 3 को शामिल करते हुये म.न. 3/44 पूर्व दक्षिण दिशा में म.न. 3/36 तक व म.न. 3/11 A से 9 मीटर रोड शामिल करते हुये म.न. 3/7 तक म.न. 3/6 से म.न. 3/3 तक म.नं. 3/1 व 3/2 को शामिल करते हुये कुल प्लॉट /मकानों की संख्या 49 व क्षेत्रफल 9285.97 मीटर ²
2 का आंशिक भाग	17	उत्तर पूर्व – म.न. 2/130 से म.न. 2/135 तक, व 2/122 से म.न. 2/129 तक 9 मीटर रोड. शामिल करते हुये म.न. 2/121 से म.न. 2/112A व म.न. 2/100 से 9 मीटर रोड शामिल करते हुये म.न. 2/111 तक. पूर्व दक्षिण – म.न. 2/22 से म.न. 2/29 तक व म.न. 2/20 से 2/15 तक 24 मीटर रोड शामिल करते हुये कुल प्लॉट /मकानों की संख्या 51 व क्षेत्रफल 12868.19 मीटर ²

2 व 1 का आंशिक भाग	18	उत्तर पूर्व दिशा में— सैकटर पार्क 2 को शामिल करने हुये म.न. 2/86 से 9 मीटर रोड़ होते हुये म.न. 2/99 तक व 2/85 से म.न. 2/72 तक पूर्व दक्षिण दिशा में— म.न. 2/30 से 9 मीटर रोड़ होते हुये म.न. 2/43 व म.न. 2/14 से 2/1 तक , 24 मीटर रोड़ होते हुये सैकटर 1 का आंशिक भाग पार्क 1 को शामिल करते हुये कुल प्लॉट /मकानों की संख्या 56 व क्षेत्रफल 18396.04 मीटर ²
2 व 1 का आंशिक भाग	19	उत्तर पूर्व— म.न. 2/57 से 9 मीटर रोड़ शामिल करते हुये म.न. 2/69 तक व 2/56 से 18 मीटर रोड़ होते हुये आरक्षित भूमि ,PHED, राजकीय स्वास्थय केन्द्र शामिल करते हुये उत्तर पूर्व दिशा में सैकटर 1 का आंशिक भाग में म.न. 1/81 से 9मीटर रोड़ होते हुये 1/85 के पास सामुदायिक भवन तक व म.न. 1/80 से म.न. 1/76 तक 9 मीटर रोड़ होते म.न. 1/14 से 24 मीटर रोड़ शामिल करते हुये म.न.1/8 तक व पूर्व दक्षिण दिशा में म.न.1/22 तक कुल प्लॉट /मकानों की संख्या 51 व क्षेत्र. 24916.1 मी. ²
1 का आंशिक भाग	20	उत्तर पश्चिम दिशा में— व्यवसायिक भूखण्ड द्वितीय व पेट्रोल पम्प की आरक्षित भूमि को शामिल करते हुये म.न. 1/7 से 24 मीटर रोड़ होते हुये म.न. 1/1 तक व्यवसायिक भूखण्ड प्रथम को शामिल करते हुये म.न. 1/31 से म.न.1/23 तक 9 मीटर रोड़ होते हुये उत्तर पूर्व में म.न. -1/70 से म.न. 1/175 व म.न. 1/69 से 9 मीटर रोड़ होते हुये म.न. ,1/64 तक, म.न. 1/52 से म.न.1/63 व म.न. 1/57 से म.न. 1/52 तक 9 मीटर रोड़ शामिल करते हुये म.न. 1/47 से 1/51A तक व म.न. 1/46 से म.न. 1/42A तक 9 मीटर रोड़ होते हुये म.न. 1/37 से 1/41A व 1/36 से पश्चिम दक्षिण दिशा में 1/32A तक कुल प्लॉट /मकानों की संख्या 64 व क्षेत्र. 21333.63 मी. ²

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका नसीराबाद

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।